



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29—फरवरी 4, 2011 (माघ 9, 1932)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2011 (MAGHA 9, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

दिनांक 13 जनवरी 2011

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 जनवरी 2011

सं. आरएस. 43/1/2010/5-कार्मिक--श्रीमती रीटा माथुर को 10 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ पुनर्नियोजन आधार पर राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक के ग्रेड में नियुक्त किया गया है।

2. श्रीमती रीटा माथुर की पुनर्नियोजन की अवधि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के कार्यकाल के समापन अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के साथ समाप्त हो जाएगी। उनके पुनर्नियोजन की अन्य शर्तें सरकारी कर्मचारियों पर लागू पुनर्नियोजन की मानक शर्तों के अनुसार होंगी।

एस. रंगराजन, उप-निदेशक

सं. आरएस. 42/2/2010/7--कार्मिक-अधिसूचना सं. आरएस. 42/2/2010/116-कार्मिक, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 का अधिक्रमण करते हुए राज्य सभा के सभापति ने श्रीमती शारदा सुब्रह्मण्यम (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा-1991) को 22 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन के अधीन और स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ राज्य सभा सचिवालय में 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप-निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

सं. ए-19012/01/2010-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिवालय में संयुक्त सचिव, श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, भा.प्र.से. (केएन : 80) को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 06.12.2010 के आदेश सं. 7/14/2010-ईओ(एसएम.-1) के अनुसरण में, इस पद का

अस्थायी उन्नयन करके, 06 दिसम्बर, 2010 के अपराह्न से, स्वस्थाने आधार पर, अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 जनवरी 2011

सं. ए-20/जी-बी/189--श्री मुकेश कुमार सक्सेना, सहायक लेखा अधिकारी, जल संसाधन मंत्रालय को वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रु., तदनु रूप ग्रेड वेतन 4,800/- रु. में, दिनांक 04.01.2011 (अपराह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. उनका वेतन व भत्ते कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन) के अनुसार विनियमित होंगे।

एस. बी. जोशी, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2011

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.-I (वि.वि.)--श्री आर. के. पट्टनायक, सहायक विधायी परामर्शी जिन्हें विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में दिनांक 02 नवम्बर, 2010 की पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा को ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त किया गया था, को 31 दिसम्बर, 2010 की पूर्वाह्न से सहायक विधायी परामर्शी के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2011

सं. ए-32012/3/2010-प्रशा-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक विधि सलाहकारों (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) को दिनांक 06 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) में रु. 7,600/- ग्रेड वेतन सहित नियमित आधार पर उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

(i) श्री जी. सी. मिश्रा

(ii) श्री जी. एस. यादव

(iii) श्री पी. के. साहा

(iv) श्री एम. एस. तारीक

2. वे दिनांक 6 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो उनकी परिवीक्षा अवधि को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उनका ग्रेड में बने रहना परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन और उप विधि सलाहकार के ग्रेड में रिक्ति की उपलब्धता के अध्वधीन होगा।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार (प्रशा.)

सं. ए-32012/6/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, श्रीमती कुसुम लता सिंह दिनांक 05 जनवरी, 2011 के अपराह्न से अधीक्षक (विधि) के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो गई हैं।

2. राष्ट्रपति, श्रीमती कुसुम लता सिंह, अधीक्षक (विधि) को विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में दिनांक 07.01.2011 के पूर्वाह्न से (दिनांक 06.01.2011 का एक दिन का तकनीकी ब्रेक देते हुए) छह माह की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पात्र अधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन सहित स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

3. इस तदर्थ नियुक्ति से वे सहायक विधि सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकेंगी और न ही उनके द्वारा की गई उक्त सेवा की गणना उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

सं. ए-32012/2/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में श्री एस. के. महापात्र, अपर विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-II) को दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/-) में रु. 10,000/- ग्रेड वेतन सहित संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार के ग्रेड (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-I) में नियुक्त करते हैं।

गणेशदत्त शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32012/2/2009-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में श्री अशोक कुमार, अपर विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-II) को दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/-) में रु. 10,000/- के ग्रेड वेतन

सहित संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार के ग्रेड (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-1) में नियुक्त करते हैं।

गणेशदत्त शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2011

सं. ए-32014/3/2010-प्रशा.-IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में कार्यरत नियमित सहायक श्री बी. के. गुप्ता को दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के अपराह्न से 31 मार्च, 2011 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पीबी-2 (रु. 9,300--34,800/- में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी. के. गुप्ता, अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/5/2009-सीएस-1 (एस) में निहित निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगी।

आशा सोटा, अवर सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2011

सं. ए-32013/4/2006-प्रशा.(वि.का.)--इस विभाग की दिनांक 02.08.2010 व 11.08.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 के का.ज्ञा. सं. 20/31/2010-सी.एस.-II (अ) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित निजी सचिवों की विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में नियमित रिक्ति के स्थान पर तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31.03.2011 तक या नियमित प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री ए. एस. मल्होत्रा
2.	सुश्री टेरेसा कुजूर

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से वे प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित प्रोन्नति के लिए दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना ग्रेड में वरिष्ठता अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

आशा सोटा, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 जनवरी 2011

सं. के. 11019/2/2010-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं

हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री मुकुल मुदगल के सेवा-निवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री रंजन गोगोड़ को दिनांक 04 जनवरी, 2011 से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2011

सं. के. 13029/06/2010-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री राजन गुप्ता, (ii) न्यायविद् श्री अजय तिवारी, (iii) न्यायविद् श्री जितेन्द्र कुमार चौहान, तथा (iv) न्यायविद् श्री ऑगस्टीन जार्ज मसीह को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2011

सं. के. 13013/05/2010-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री गुरिजाला क्रिश्ना मोहन रेड्डि और (ii) श्री कोल्ला सूर्या अप्पा राव को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

सं. 16013/29/2008-आई पी एस-II--जबकि, श्री राहुल राय सूर, आई पी एस (महाराष्ट्र : 81) को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सेवा के कार्यालय में 15.7.1997 को छः महीने की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर, अन्वेषक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा प्रतिनियुक्ति की अंतिम विस्तारित अवधि 31.05.2004 तक थी। 31.05.2004 के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति को बढ़ाने हेतु उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया गया और इसे स्वीकार नहीं किया गया है। उन्हें दिनांक 04.09.2004 के पत्र के तहत इस मंत्रालय द्वारा 31.10.2004 तक अपना कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया;

और जबकि, श्री राहुल राय सूर ने उपर्युक्त पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है, उन्हें दिनांक 02.03.2005 को इस बारे में एक नोटिस जारी किया

गया कि उनकी विदेश सेवा की अनुमोदित अवधि के बाद उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के नियम 7 (2) (ग) के उपबंध अर्थात् मानित त्याग-पत्र उन पर क्यों न लागू किए जाएं;

और जबकि, उक्त श्री राहुल राय सूर ने उपर्युक्त नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया है, इस मंत्रालय के दिनांक 20.05.2005 के पत्र के तहत, उनसे स्पष्टीकरण भेजने को कहा गया। उन्हें उक्त पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर दिया गया जिसके न होने पर, पूर्वोक्त नियमों के उपबंधों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी;

और जबकि, उक्त श्री राहुल राय सूर, आई पी एस ने उक्त पत्र पर भी ध्यान नहीं दिया;

और जबकि, मामले पर आगे विचार किया गया और उनकी निरंतर अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा इस मंत्रालय के पत्रों का उत्तर न देने को ध्यान में रखते हुए उनके मामले में उक्त नियम के नियम 7 (2) (ग) के उपबंधों को लागू करना वांछनीय पाया गया;

और जबकि, राष्ट्रपति ने उक्त नियम के नियम 7 (2) (ग) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26.09.2005 को उनके माने गए त्याग-पत्र की अधिसूचना जारी की। श्री राहुल राय सूर अधिसूचना की तारीख से भारतीय पुलिस सेवा से कार्यमुक्त हो गए;

और जबकि, श्री राहुल राय सूर ने माने गए अपने त्याग-पत्र की उपर्युक्त अधिसूचना के विरुद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन (ओ. ए. सं. 1505/2007) दायर किया;

और जबकि, माननीय अधिकरण ने अपने दिनांक 01.04.2008 के आदेशों के तहत उपर्युक्त अधिसूचना को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों को आवेदक के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने का निदेश दिया;

और जबकि, इस मंत्रालय ने अधिकरण के उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील (रिट याचिका सं. 6512/2008) दायर की थी;

और जबकि, उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.11.2010 के अपने आदेशों के तहत यह टिप्पणी की कि दिनांक 04.09.2004 के पत्र की तामीली न होना श्री राहुल राय सूर के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला सिद्ध हुआ है। उच्च न्यायालय ने आशोधन के साथ दिनांक 26.9.2005 के आदेश को खारिज कर दिया तथा निदेश दिया कि श्री राहुल राय सूर को दिनांक 31.10.2004 से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त समझा जाये। उच्च न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि आदेश की तारीख से तीन माह की अवधि के अन्दर उन्हें आवश्यक पेंशन संबंधी देय राशि का भुगतान कर दिया जाए जिसके न होने पर 3 माह के पश्चात् से भुगतान की तारीख तक 6% वार्षिक की दर से देय राशि पर ब्याज प्रभारित होगा;

और जबकि, उच्च न्यायालय के दिनांक 08.11.2010 के उपर्युक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की आगे और जांच की गई तथा मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि उक्त श्री राहुल राय सूर,

आई पी एस को दिनांक 31.10.2004 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त समझा जाए तथा उन्हें आवश्यक पेंशन संबंधी देय राशि का भुगतान कर दिया जाए;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी यह आदेश देते हैं कि श्री राहुल राय सूर, आई पी एस (महाराष्ट्र : 81) को दिनांक 31.10.2004 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ माना जाए। वह इस तारीख से भारतीय पुलिस सेवा से कार्यमुक्त हो गए हैं। इसे तदनुसार अधिसूचित किया जाता है।

(भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से)

के. नटराजन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जनवरी 2011

सं. I-18011/11/2010-आई पी एस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :---

क्र. सं.	भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
सर्वश्री		
1.	ए. सर्वानन्, आई पी एस (तमिलनाडु : 2007)	18.08.2009
2.	एस. जेवियर धनराज, आई पी एस (तमिलनाडु : 2007)	18.08.2009
3.	अनिल कुमार गिरि, आई पी एस (तमिलनाडु : 2007)	19.08.2009
4.	प्रवेश कुमार, आई पी एस (तमिलनाडु : 2007)	10.12.2009

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2011

सं. ए-19011/1/2011/अं.रा.प.--राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार नायर (सी.एस.एल. सं. 4529) को अंतर्राज्य-परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) (चयन सूची/2010) के रूप में नियमित आधार पर दिनांक 10 जनवरी, 2011 के पूर्वान्त से सहर्ष नियुक्त करती हैं।

बी. एम. डेविड, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2011

सं. 13017/37/2010-अ.भा.से. (I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब सरकार एवं गृह मंत्रालय के परामर्श से केन्द्रीय सरकार श्री विजय कुमार सिंह, आईएएस (पंजाब : 90) को तीन वर्ष की अवधि के लिए, चण्डीगढ़ प्रशासन में वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु पंजाब से ए.जी.एम.यू. संवर्ग में दी गई अंतः संवर्ग प्रतिनियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2011

सं. 14015/38/2010-अ.भा.से. (I)-बी--श्री ध्रुव वशिष्ठ द्वारा दायर ओ.ए. सं. 327/2009 के माननीय कैट, चण्डीगढ़ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 22.03.2010 के अनुपालन में, समीक्षा चयन समिति, जिसकी बैठक श्री वशिष्ठ के मामले पर विचार करने के लिए दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को हुई थी, ने 2008 की चयन सूची जो मूल रूप से 9 दिसम्बर, 2009 को तैयार की गई थी, में उनका नाम, श्रीमती पुष्पिमा चौहान के नीचे तथा श्री के. आर. भारती के ऊपर, क्रम सं. 2ए पर शामिल कर लिया है तथा अब उक्त चयन समिति की तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 4 जनवरी, 2011 को यथा अनुमोदित अनुशंसाओं के अनुसरण में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सेवा के एक सदस्य के रूप में श्री ध्रुव वशिष्ठ को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश संवर्ग में आवंटित करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2011

सं. ए-32013/3/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री वी. एम. रत्नम, सीएसएस को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-3 (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में 29 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

सं. ए-32013/3/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्रीमती सरिता नायर, सीएसएस को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-3 (पीबी-3)

रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में 01 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2010

सं. पीबी-1/2010--इस मंत्रालय के दिनांक 5 अगस्त, 2010 के आदेश सं. क्यू/विज/842/04/2003 के अनुसरण में भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी, श्री राजन को 19 जून, 2009 से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

2. इसे इस मंत्रालय के दिनांक 10 जुलाई, 2009 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 10/पीबी-1/2009, के अतिक्रमण में जारी किया गया है।

एस. के. वर्मा, अवर सचिव (पीबी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2010

सं. क्यू/पीबी-1/584/07/2010--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 9 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/3/2010 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV तथा भारतीय विदेश सेवा (ख) के साईफर संवर्ग के ग्रेड II से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II व ग्रेड III स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती		
1.	एस. महेश	06.08.1961	14.07.2010
2.	माधो राम	30.12.1950	14.07.2010
3.	एम. के. जैन	26.10.1960	14.07.2010
4.	पी. सी. जार्ज	04.04.1952	14.07.2010
5.	ओ. पी. श्रीवास्तव	10.05.1956	14.07.2010
6.	बिमला चौधरी	27.07.1953	14.07.2010
7.	के. पी. साहू	20.09.1952	14.07.2010
8.	डी. एस. बिष्ट	25.07.1959	14.07.2010
9.	सत्यव्रत कादयन	10.11.1954	14.07.2010
10.	महावीर सिंह	14.07.1956	14.07.2010

1	2	3	4
श्री/श्रीमती			
11.	कुलदीप कुमार शर्मा	13.06.1957	14.07.2010
12.	अनील कुमार कपूर	12.03.1960	14.07.2010
13.	सुश्री रमा शर्मा	05.02.1957	14.07.2010
14.	ज्ञान प्रकाश अग्रवाल	17.09.1957	14.07.2010
15.	दीपक कुमार मेहता	29.12.1954	14.07.2010
16.	हिलोल कुमार सिन्हा	02.10.1959	14.07.2010
17.	दिलीप कुमार चावला	14.08.1957	14.07.2010
18.	सुश्री बानी मुखर्जी	01.06.1957	14.07.2010
19.	मोहनन के. एस.	01.11.1953	14.07.2010
20.	सुश्री अमृता कोहली	16.05.1959	14.07.2010
21.	सुश्री इन्दु सिंह छिकारा	23.12.1955	14.07.2010
22.	ब्रह्म कमल	16.07.1957	14.07.2010
23.	मंगला प्रसाद मैथानी	25.11.1958	14.07.2010
24.	प्रेम कुमार	07.07.1957	14.07.2010
25.	अनिल कांत शर्मा	09.10.1957	14.07.2010
26.	विनोद कुमार वर्मा	11.12.1955	14.07.2010
27.	एन. सोमन	24.03.1952	14.07.2010
28.	गोपाल कृष्ण	09.07.1955	14.07.2010
29.	सुजीत बिस्वास	24.11.1966	14.07.2010

2. उपर्युक्त अधिकारियों ने 14 जुलाई, 2010 से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

दिनांक 23 सितम्बर 2010

सं. क्यू/पीबी-1/584/07/2010--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 9 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/3/2010 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV तथा भारतीय विदेश सेवा (ख) के साईफर संवर्ग के ग्रेड II से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II व ग्रेड III ग्रेड स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
श्री/श्रीमती			
1.	संजीव कुमार	05.11.1965	14.07.2010
2.	इंदर कुमार शर्मा	15.06.1953	14.07.2010

2. उपर्युक्त अधिकारियों ने 14 जुलाई, 2010 से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

दिनांक 6 अक्टूबर 2010

सं. 34/पीबी-1/2010--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 9 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/3/2010 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV तथा भारतीय विदेश सेवा (ख) के साईफर संवर्ग के ग्रेड II से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II व ग्रेड III स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
श्री/श्रीमती			
1.	सिद्धार्थ एस. केन	02.01.1958	14.07.2010
2.	अनिल कुमार भाटिया	18.10.1955	18.08.2010

2. उपर्युक्त अधिकारियों ने अपने नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

दिनांक 12 अक्टूबर 2010

विषय : दिनांक 27 अगस्त, 2010 की अधिसूचना से संबंधित शुद्धि-पत्र

सं. 35/पीबी-1/2010--दिनांक 27 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. क्यू/पीबी-1/584/07/2010 में अधिकारी का नाम क्रम सं. 22 में सही करके श्री ब्रह्म कमल पढ़ा जाए।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2011

सं. 1/पीए-11/2011--श्री ए. के. भटनागर, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 दिसंबर 2010 को अपराहन में भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव

सं. 2/पीए-11/2011--श्री रमेश कुमार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 दिसंबर 2010 को अपराहन में भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव

सं. 3/पीए-II/2011--श्री एम. के. गुप्ता, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 दिसंबर 2010 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव

दिनांक 5 जनवरी 2011

सं. क्यू/पीए-II/578/48/10--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2009 के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित 25 (पच्चीस) उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथि से भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) परीक्षार्थी नियुक्त करती हैं।

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
(श्री/सुश्री)		
1.	सास्वती डे	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
2.	सिद्धार्थ मलिक	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
3.	रोहित मिश्रा	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
4.	मो. शाहिद आलम	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
5.	देवी गोपीनाथ	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
6.	निशि कांत सिंह	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
7.	पटेल यतिनकुमार शांतिलाल	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
8.	एल्डोस मैथ्यू पन्नूज	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
9.	मेत्री कुलकर्णी	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
10.	येओला नितीन सुभाष	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
11.	सौम्या नायर	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
12.	सी. रामकुमार	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
13.	नितिन प्रमोद	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
14.	बाधे पवनकुमार तुलसीदास	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
15.	वधवाना रोहितकुमार रमेशचन	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
16.	शिवगुरु एम.	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
17.	सुरेन्द्र कुमार अधाना	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
18.	लक्ष्मी कांत कुम्भर	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
19.	विशाखा यदुवंशी	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
20.	राजेश एन. नायक	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
21.	पूजा वी. वरनेकर	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
22.	सुशील प्रसाद	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
23.	मिजिटो विनिये	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
24.	वरुण जेफ	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)
25.	वर्तिका रावत	30 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त 25 अधिकारियों ने अपनी नियुक्ति के पश्चात् उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा परीक्षार्थी (2010) का पदभार संभाल लिया।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

कार्यालय उप मुख्य न्याचार (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2011

सं. डी III/460/सी एफ-46/2010--राष्ट्रपति, कोलकाता में चीन जनवादी गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री झांग लिझोंग की नियुक्ति को मान्यता दे दी है।

श्री झांग लिझोंग के कौंसली क्षेत्राधिकार में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य होंगे, जिसका केंद्र कोलकाता होगा।

एस. इन्वशेखर, उप मुख्य न्याचार (एफ)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110021, दिनांक 13 जनवरी 2011

सं. ओआई-11016/191/2010-पीएंडसी--केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा, सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क) के अधीन, अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 के दायित्वों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए दिनांक 15.11.2010 के पत्र संख्या सीआईसी/एटी/डी/10/000111 द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव (डायस्पोरा सेवाएं) को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के लिए पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

एम. सत्य बाबू, उप सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2010

सं. 110: (फा.सं. ए.19013/30/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री संतोष कुमार वत्स (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 19.11.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2010

सं. 111: (फा.सं. ए. 38011/4/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1974) की अधिकारी श्रीमती चित्रा गौरी लाल, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने

पर दिनांक 30 नवम्बर, 2010 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 112: (फा.सं. ए. 38011/5/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1973) के अधिकारी श्री वी. श्रीधर, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30 नवम्बर, 2010 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 113: (फा.सं. ए. 19011/19/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री राजेश ढींगरा, भारतीय राजस्व सेवा (के.उ.एवं सी.शु. : 75) को दिनांक 30.11.2009 (अपराह्न) से और अगले आदेशों तक अथवा उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के विशेष सचिव की पदवी सहित 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद एवं शुल्क बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री राजेश ढींगरा, भारतीय राजस्व सेवा (के.उ. एवं सी.शु. : 75) की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्ति श्री एम. द्विवेदी मुख्य आयुक्त (सेवानिवृत्त) द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट)/मुंबई पीठ (अब प्रधान पीठ, नई दिल्ली में स्थानांतरण) के समक्ष दायर मूल आवेदन सं. 537/2008 के अंतिम परिणाम के अधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 दिसम्बर 2010

सं. 115: (फा.सं. ए.19011/20/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री वी. के. गर्ग भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 83) को दिनांक 22.12.2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (टी आर यू-II) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2011

सं. ए. 22011/2/2008-प्रशा.2--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 20.12.2010 के का.ज्ञा.सं.-32015/4/2010-सीएस के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक

कार्य विभाग में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.03.2011 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	क्र. सं.	अधिकारियों के नाम
	(सर्वश्री/श्रीमति)		(सर्वश्री/श्रीमति)
1.	रीता सचदेवा	13.	नीरा बुद्धिराजा
2.	वाई.वाई. पराते	14.	अशोक कुमार
3.	स्वर्ण रूद्रा	15.	के. एल. मीणा
4.	साधना शर्मा	16.	रमेश प्रसाद
5.	नीलम सिब्बल	17.	ई. कुजुर
6.	दयाल कुमारी कालरा	18.	सतिन्दर जीत कौर
7.	संजय कुमार झा	19.	शिखा दास
8.	सरिता गुलाटी	20.	सुनील कुमार मांडी
9.	भाष्कर चक्रवर्ती	21.	संतोष कुमार
10.	भोला नाथ सैनी	22.	एस. सुब्रमणियम
11.	मनोज मनु	23.	हृदय नंद साह
12.	जे. एल. जैन		

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायकों की तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी :

(क) यह तदर्थ नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण अधिकारियों को अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ख) यह तदर्थ व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए या अगले आदेशों तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित उनके संबंधित संवर्ग में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2011

सं. ए-19011/01/2011-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, श्री पंकज शर्मा (आईसीएस-2000) को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 3 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2011

सं. ए.12011/6/2009-प्रशा.2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.12.2010 और 31.12.2010 के का. ज्ञा. सं. 6/9/2011-सीएस-I (एस) तथा संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग, व्यय विभाग के दिनांक 05.01.2011 के का. ज्ञा. सं. ए.32015/4/2010-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

नाम	पदग्रहण की तारीख
1. श्रीमती नीलम गांधी	30.12.2010 (पूर्वाह्न)
2. श्रीमती प्रतिभा शर्मा	30.12.2010 (पूर्वाह्न)
3. श्री डी. के. असिजा	31.12.2010 (अपराह्न)

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायक की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी :--

- इस तदर्थ पदोन्नति की अवधि दिनांक 31.03.2011 तक होगी या नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो।
- कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण यह तदर्थ नियुक्ति अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के द्वारा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें, इन नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अशोक कुमार, अवर सचिव

सं. ए.12011/05/2010-प्रशा.2--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2010 के का.ज्ञा. सं. 20/31/2010-सीएस-II तथा व्यय विभाग (सीएसएस) के दिनांक 31.12.2010 के का. ज्ञा. सं. ए-32014/4/2010-सीएस के अनुसरण में, केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,600/- रु. ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से दिनांक 30.06.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित रूप से पदों के भरे जाने तक,

या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जिस विभाग में वे कार्यरत हैं	आर्थिक कार्य विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख
----------	----------------	------------------------------	--

(श्री/सुश्री)

1. ए. के. प्रसाद योजना आयोग 24.12.2010 (पूर्वाह्न)
2. राजेन्द्र कुमार शहरी विकास 27.12.2010 (पूर्वाह्न)

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति पूरी तरह तदर्थ आधार पर है और यह नियुक्ति अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या प्रधान निजी सचिव के पद में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

सं. पी.एफ.जी.(2182)/-प्रशा-I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में उप निदेशक श्री जे. डी. शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31 दिसम्बर, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग की नामावली से काट दिया जाएगा।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

दिनांक 6 जनवरी 2011

सं. ए.12026/4/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के सी.एस.एस. संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 31 मार्च, 2011 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

1. श्री डी. सी. केम
2. श्री शरद एन. हुलाले
3. श्रीमती उषा गिल
4. श्री नरेन्द्र प्रकाश
5. श्री प्रवीन चन्द्र शर्मा
6. श्रीमती विजय खारत
7. श्री सी. एम. कोछड़
8. श्री सुनील कुमार
9. श्री टी. बैक

2. उपर्युक्त अधिकारियों की यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें इस ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी तथा उनके द्वारा इस पद पर अल्पकालिक आधार पर की गई सेवा की गणना अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2011

सं. ए-12026/9/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से प्रारंभ में 31 मार्च, 2011 अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो पूर्णतः तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के सी.एस. एस. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	नाम	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री के. जे. भट्ट	30.12.2010 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री संगीता टोपो	31.12.2010 (अपराह्न)
3.	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	31.12.2010 (अपराह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित नियुक्ति का कोई दावा करने का हक प्रदान नहीं करेगी तथा इस ग्रेड में अल्पकालिक आधार पर की गई सेवा की गणना अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु नहीं की जाएगी।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2010

सं. ए. 12026/8/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अवर सचिव, श्री जगदीश चन्द्र को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में चयन सूची वर्ष 2010 में आने के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर वेतन बैंड (3) रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/- (ग्रेड वेतन) में 31 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2011

सं. 9/9/2010-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2010 के का.ज्ञा. सं. 20/31/2010-सीएस II(ए) के साथ पठित व्यय विभाग (संवर्ग नियंत्रण अनुभाग) के दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के का.ज्ञा. सं. ए-32014/4/2010-सीएस के अनुसरण में राष्ट्रपति, सीएसएसएस के एक नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित)

(निजी सचिव) श्री संजय कुकरेजा को विनिवेश विभाग में 15,600--39,100 रुपए (पीबी-3) + रु. 6,600/- रुपए के ग्रेड के वेतनमान में पदोन्नति पर तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री कुकरेजा ने अपने पद का पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्हें 10 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से 30 जून, 2011 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विभाग की नामावली में शामिल कर लिया गया है।

3. उपरोक्त अधिकारी की पूर्वोक्त पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के पद पर वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

आशीष कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2011

सं. ए-32013/1/2010-संवर्ग--कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 नवम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/3/2010-सी.एस.-1डी द्वारा वर्ष 2010 के लिए चयन ग्रेड की अनुपूरक चयन सूची में शामिल किये जाने के फलस्वरूप और उनके दिनांक 29 दिसम्बर 2010 के कार्यालय आदेश संख्या 4/2/2010-सी.एस.-1 डी. के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्रीमती स्नेह प्रभा मदान को 3 जनवरी 2011 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा की उप सचिव के नाते नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति, सुश्री गरिमा सिंह बनाम भारत संघ व अन्य से संबंधित मामले में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोलकाता के समक्ष वर्तमान में लम्बित ओ/ए सं. 1864/2009 में उनके अन्तिम आदेशों के अध्याधीन होगी।

3. श्रीमती स्नेह प्रभा मदान, उप सचिव को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

अजय कुमार, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2011

सं. ए-45011/3/2010-स्थापना-I--तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 के का. ज्ञा. सं. 6/9/2010-सी.एस.-I (एस) के अनुसरण में डाक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 31.12.2010 के अपराह्न से 31.03.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस

विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	तैनाती का स्थान
1.	श्री वी. एस. वी. पिल्लई	औ.नी. और सं.वि.
2.	श्री रोहतास सिंह	भारी उद्योग विभाग

उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हैं और इनसे संबंधित अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उस पद पर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता, आदि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी, जब तक वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के जरिये अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। यदि तदर्थ नियुक्ति वाले अधिकारी इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति की योग्यता प्राप्त नहीं करते, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर उस तारीख से सहायक ग्रेड में पदावनत कर दिया जाएगा जिस तारीख से नियमित अनुभाग अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन्हें आवंटित संबंधित संवर्ग में कार्य ग्रहण कर लेंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2011

सं. ए. 60011/38/2007-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/7/2010-ईओ(एमएम-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, डा. नीरज मित्तल, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 92) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के अपराह्न से 04.06.2015 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

सं. ए-12011/6/2010-एच.आर.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.08.2010 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-सीएस-I(डी) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रीमती ललिता दास को दिनांक 27.08.2010 के पूर्वाह्न से उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 18 अक्टूबर 2010

सं. ए-32011/01/2010-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.09.2010 के का. ज्ञा. सं. 5/3/2010-सीएस-I(यू) में निहित निबंधन एवं शर्तों के अधीन श्री पी. बैरागी साहू अनुभाग अधिकारी को उर्वरक विभाग में दिनांक 10.09.2010 (अपराह्न) से 31.05.2011 तक या जब तक कि पद नियमित आधार पर न भर लिया जाए, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 19 अक्टूबर 2010

सं. ए-23011/16/2005-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.07.2010 के का. ज्ञा. सं. 6/4/2010-सीएस-I(एस) द्वारा श्रीमती शशि सक्सेना को वर्ष 2008 की अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत उनका नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, उन्हें 03.09.2010 से पे बैंड-2 (4,800/- रुपए के ग्रेड पे सहित 9,300--34,800/- रुपए) में उर्वरक विभाग के संयुक्त संवर्ग में नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. अधिकारी को नोशनल आधार पर वेतन के निर्धारण के उद्देश्य से 01.07.2008 से पदोन्नत माना जाएगा। तथापि, अधिकारी को वास्तविक लाभ अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति होने तथा पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा।

3. यह नियुक्ति श्री कैलाश चंद्र बनाम संघ सरकार द्वारा उच्च न्यायालय, दिल्ली में दायर तथा लंबित न्यायालय मामला सं. 13245-60/2005, सीएटी, दिल्ली में श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ सरकार द्वारा दायर और लंबित मामला सं. ओए 1083/2007 और एमए सं. 1171/2007 तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005, सीएटी, दिल्ली में ओए सं. 3294/2009 तथा ओए सं. 2674/2009 के निर्णय के अध्यधीन होगी।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-23011/16/2005-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.07.2010 के का. ज्ञा. सं. 6/4/2010-सीएस-I(एस) द्वारा श्री एस. के. कौशिक को वर्ष 2008 की अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत उनका नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, उन्हें 03.09.2010 से पे बैंड-2 (4,800/- रुपए के ग्रेड पे सहित 9,300--34,800/- रुपए) में उर्वरक विभाग के संयुक्त संवर्ग में नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. अधिकारी को नोशनल आधार पर वेतन के निर्धारण के उद्देश्य से 01.07.2008 से पदोन्नत माना जाएगा। तथापि, अधिकारी को वास्तविक

लाभ अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति होने तथा पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा।

3. यह नियुक्ति श्री कैलाश चंद्र बनाम संघ सरकार द्वारा उच्च-न्यायालय, दिल्ली में दायर तथा लंबित न्यायालय मामला सं. 13245-60/2005, सीएटी, दिल्ली में श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ सरकार द्वारा दायर और लंबित मामला सं. ओए 1083/2007 और एम सं. 1171/2007 तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005, सीएटी, दिल्ली में ओए सं. 3294/2009 तथा ओए सं. 2674/2009 के निर्णय के अधधीन होगी।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 26 अक्टूबर 2010

सं. ए-19011/21/2006-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया द्वारा श्री गौतम चटर्जी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) (जो वर्तमान में दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं) को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन सूची के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में नाम शामिल होने और निदेशक के रूप में प्रोफार्मा पदोन्नति दिए जाने के परिणामस्वरूप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.09.2010 के कार्यालय आदेश सं. 4/9/2008-सीएस-I(डी) के ठीक निचले नियम के अंतर्गत दिनांक 21.09.2010 से वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2011

सं. ए-38011/8/2010-एच.आर.-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप श्री के. के. पद्मनाभन, उप सचिव दिनांक 31.12.2010 से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2011

सं. 32015/1/2009-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के 30 नवम्बर, 2010 के का. ज्ञा. सं. 20/31/2010-सीएस-II के अनुसरण में राष्ट्रपति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सीएसएसएस के स्थायी स्टेनोग्राफर ग्रेड ए एवं बी (विलय) (निजी सचिव) श्री बी. एल. छिन्नर को कोयला मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतन संरचना पीबी-3 में 15,600--39,100/- रु. जमा 6,600/- रु. के ग्रेड वेतनमान में 31.12.2010 के पूर्वार्ह से, अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर की जा रही है तथा इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा सीएसएसएस के पीपीएस ग्रेड में वरिष्ठता

का दावा करने का उन्हें कोई अधिकार होगा। सरकार के पास किसी भी समय उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

सं. ए-18011/117/2010-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.11.2010 के कार्यालय आदेश सं. 04/02/2010-सीएस-I(डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव चयन सूची में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) श्री वी. के. वधवा को 26 नवम्बर, 2010 के पूर्वार्ह से अगले आदेशों तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में नियुक्त करती हैं।

पी. पी. मुरलीधरन, उप सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 जनवरी 2011

सं. ए-45011/13/2005-प्रशा.--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) और 19(1) के अनुसार और इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं और संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारी एतद्द्वारा इस विभाग के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए जाते हैं :--

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

श्री मनजीत कुमार

उप सचिव

दूरभाष संख्या 23061565

ई मेल आईडी :--kumar.manjit@nic.in

पता :--कमरा सं. 61, उद्योग भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली-11

2. अपीलीय प्राधिकारी

श्री अम्बुज शर्मा

संयुक्त सचिव

दूरभाष संख्या 23063733

ई मेल आईडी :--ambuj.sharma@nic.in

पता :--कमरा सं. 183, उद्योग भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली-11

मोहम्मद नसीम खान, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 5 जनवरी 2011

सं. ए-01/08/2006-प्रशा.-I(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'सी' की 15,600--39,100/- रुपये के पे बैंड (पीबी-3) + 7,600/- रुपये ग्रेड पे में वैज्ञानिक 'डी' के रूप में नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 01.01.2011 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. नाम
सं.

1. श्री डोयिल टी. वेंगायिल, वैज्ञानिक सी
2. श्री एस. के. अग्रवाल, वैज्ञानिक सी

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-01/08/2006-प्रशा.-I(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' की 15,600--39,100/- रुपये के पे बैंड (पीबी-3) + 6,600/- रुपये ग्रेड पे में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 01.01.2011 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. नाम
सं.

1. श्री राजेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक बी
2. श्री जे. बी. वी. रेड्डी, वैज्ञानिक बी

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-01/08/2006-प्रशा.-I(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' की 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड (पीबी-4) + 8,700/- रुपये ग्रेड पे में वैज्ञानिक 'ई' के रूप में नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 01.01.2011 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. नाम
सं.

1. श्री पम्पोश कुमार, वैज्ञानिक डी
2. श्री सुदर्शन राव, वैज्ञानिक डी

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-01/08/2006-प्रशा.-I(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'ई' की 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड (पीबी-4) + 8,900/- रुपये ग्रेड पे में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 01.01.2011 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

में नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर 01.01.2011 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. नाम
सं.

1. सुश्री रितु भटनागर, वैज्ञानिक ई
2. श्रीमती निशा मेंदीरता, वैज्ञानिक ई

लता गोपकुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 जनवरी 2011

सं. ए-32011/02/2003-प्रशा.-I(ए)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/31/2010-सीएस-II(ए) के तहत उनकी वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में नामांकन के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित वरिष्ठ निजी सचिव, श्री वी. डी. रंजन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर 15,600--39,100/- रुपये के पे बैंड -3 में 7,600/- रुपये ग्रेड पे सहित 31.12.2010 के अपराह्न से 31.03.2011 की अवधि तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रखने अथवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 3 जनवरी 2011

सं. ए-32019/03/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री इन्दू भास्कर, श्री ए. वी. चैनुलू, श्री बी. एन. सरकार और श्री विमल कुमार वरुण को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 23 दिसम्बर, 2010 से आगे और आदेश होने तक संशोधित लचीली पूरक स्कीम के अंतर्गत यथा-स्थाने आधार पर 37,400--67,000/- रुपये + 8,900/- रुपये (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पीबी-4) में वैज्ञानिक 'ई' ग्रेड से वैज्ञानिक 'एफ' ग्रेड में पदोन्नत करते हैं।

श्रीनिवास प्रधान, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

सं. 22012/12/2002-भा.व.से.II--पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 02.03.2007 की समसंख्यक अधिसूचना और सं. 22012/13/2001-आईएफएस-II दिनांक 23.12.2008 का

अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1966 के विनियमन-9 के उप-विनियमन (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 1990, 1991-92, 1992-93 की चयन सूची के आधार पर हरियाणा राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का हरियाणा संवर्ग आवंटित करते हैं :-

चयन सूची 1990

क्र. अधिकारी का नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री)	
1. एस. एस. सीकरीवाल	20.10.1952
2. ब्रिज भूषण शर्मा	20.12.1938
3. मोहिंदर सिंह सांगवान	16.02.1955
4. आर. एस. जोशी	07.10.1938
5. आर. एस. लाम्बा	23.02.1957
6. विनोद कुमार झाझरिया	02.01.1955
7. एस. एस. पंवार	12.06.1938
8. के. आर. भाटला	12.01.1940

चयन सूची 1991-92

शून्य

चयन सूची 1992-93

शून्य

2. यह श्री डी. के. सिन्हा और अन्य बनाम आर. एस. लाम्बा और अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 3315/सीएटी/2007 में दिनांक 04.03.2009 को माननीय पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में है।

विवेक सक्सेना, निदेशक

राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड (एनईबी)

नई दिल्ली-110510, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 22-2/2010/-एनईबी-बी-VI--राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अवर सचिव श्रीमती रीता तायल के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए उनकी दिनांक 23.07.2010 की सूचना की स्वीकृति के फलस्वरूप वे 1 नवम्बर, 2010 पूर्वाह्न को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रही हैं।

दीपक गोवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 जनवरी 2011

सं. 2476/10-सीएचएस-IV--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग की अधिकारी और सफदरजंग अस्पताल की सीजीएचएस विंग में तैनात डा. सुषमा सूरी, परामर्शदाता (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) का दिनांक 23.10.2010 को निधन हो गया।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

सं. ए-12018/1/2007-डी.एफ.क्यू.सी.(पार्ट)--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत् अनुमोदित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर, राष्ट्रपति, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में श्री ए. बी. रामटेके, बायोकेमिस्ट को दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 से आगामी आदेशों तक नियमित क्षमता में संशोधित वेतन ढांचे पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपए) + ग्रेड पे 7,600/- रुपए (समूह 'क' राजपत्र गैर-मंत्रालयी) औषध उपनियंत्रक (भारत) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति से उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय स्वस्थाने प्रोन्नति नियम, 1990 के अंतर्गत वैज्ञानिक-4 स्तर पर स्वास्थ्याने प्रोन्नति पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा वह अब तक की भांति आगे भी वही वेतन तथा भत्ते आहरित करते रहेंगे।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 14 जनवरी 2011

सं. ए.12025/302/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. राघवेन्द्र कुमार को 23 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपए) + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं। डा. राघवेन्द्र कुमार को विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2010

सं. 4-4/2006-विस्तार (भाग)--राष्ट्रपति, संयुक्त निदेशक (एफ आई) श्री एस. एम. एच. काजमी को विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 28.12.2008 से 27.12.2010 तक (कार्योत्तर) तथा 27 दिसम्बर, 2010 के पश्चात् आगे छह माह अर्थात् 28 दिसम्बर, 2010 से 27 जून, 2011 तक की अवधि अथवा पद के नियमित आधार पर भरे

जाने अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक तदर्थ आधार पर रु. 15,600--39,100/- के पे बैण्ड-3 + ग्रेड पे रु. 7,600/- में निदेशक (एफ आई) जी. सी. एस. समूह 'क' राजपत्रित के पद पर नियुक्ति को जारी रखती है।

थॉमस वर्गीस, निदेशक (विस्तार)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2011

सं. 38017/1/2009-विपणन-I--स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर श्री वी. नारायणस्वामी, निदेशक (शीतागार) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद दिनांक 21.7.2010 पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधे श्याम, अवर सचिव

सं. 38017/1/2009-विपणन-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर डा. ए. के. चक्रवर्ती, विपणन अधिकारी (ग्रुप-II) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई दिनांक 31.7.2010 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधे श्याम, अवर सचिव

सं. 38017/1/2009-विपणन-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री डी. आर. के. सिंह, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, राजकोट दिनांक 31.12.2010 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधे श्याम, अवर सचिव

सं. 38017/1/2009-विपणन-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री के. पी. सिंह, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद दिनांक 31.12.2010 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधे श्याम, अवर सचिव

सं. 38017/1/2009-विपणन-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर डॉ. (श्रीमती) सजनी कुमार, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, बंगलौर दिनांक 31.8.2010 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

राधे श्याम, अवर सचिव

सं. 38017/1/2009-विपणन-I--स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर श्री एस. सी. सरकार, उप कृषि विपणन सलाहकार (ग्रुप-I), क्षेत्रीय कार्यालय,

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, चैने दिनांक 19.8.2010 पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधे श्याम, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2011

सं. ए-19012/8/2007-स्था.--श्री ए. बी. एल. निगम, सहायक निदेशक (राजभाषा) दिनांक 31.12.2010 (अपराह्न) से अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वनिता सूद, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2011

शुद्धि पत्र

सं. 1-6/2007-डीडी-IV--श्री हर्ष भाल आईआईएस (1983) की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी), फरीदाबाद के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति से संबंधित दिनांक 23.9.2010 की अधिसूचना संख्या 1-6-2007-डीडी-IV में उनके 37,000--67,000/- रुपए पे बैंड (पीबी-4) को 37,400--67,000/- रुपए (पीबी-4) पढ़ा जाए।

एस. के. पटनायक, निदेशक

नई दिल्ली-110115, दिनांक 23 सितम्बर 2010

सं. ए-32014/02/2010-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 6/6/2009-सी.एस.-I (एस), दिनांक 7 जून, 2010 के अनुसरण में, इस मंत्रालय के मूल सहायकों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (समूह ख, राजपत्रित) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पे बैण्ड-2 (9,300--34,800/- रुपए) के वेतनमान में 4,800/- रुपए की ग्रेड पे के साथ 14 सितम्बर, 2010 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर, 2010 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

- (i) श्री वेंसी देवनानी
- (ii) श्री ए. के. अग्रवाल
- (iii) श्री ओम प्रकाश
- (iv) श्री एस. के. भल्ला
- (v) श्री हरबंस लाल

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः स्थानापन्न उपाय है तथा यह उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन

सूची में शामिल होने के लिए अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-12022/8/2006-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2010 को का.ज्ञा. सं. 6/1/2010-सीएस-I (एस) के तहत वरिष्ठता कोटे के लिए वर्ष 2006 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में नाम शामिल होने पर श्री के. के. शर्मा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के मूल सहायक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय) के अनुभाग अधिकारी संवर्ग में पे-बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान में 4,800/- रुपए के ग्रेड पे के साथ) में 27.10.2010 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति उच्च न्यायालय, दिल्ली में कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर लंबित कोर्ट मामला सं. 13245-60/2005 तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर मामला सं. ओए-1083/2007 तथा एमए सं. 1171/2007 तथा उच्च न्यायालय, दिल्ली में दायर सीडब्ल्यूपी/3352/2005, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर ओए सं. 3294/2009 तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर ओए सं. 2674/2009 के निर्णयाधीन है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2010

सं. ए-32013/03/2007-स्था.--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) की चयन सूची 2010 हेतु चयन ग्रेड (उप सचिव) में सम्मिलित होने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2010-सी.एस.आई (डी) के तहत उप सचिव के रूप में नियमित आधार पर पदोन्नति होने तथा इस मंत्रालय में तैनाती होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मूल ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी टी. वी. अच्युत राम को 15.11.2010 के (पूर्वाह्न) से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सी. एस. एस. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की उपर्युक्त पदोन्नति सुश्री गरिमा सिंह बनाम भारत संघ और अन्य से संबंधित मामले में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), कोलकाता के समक्ष दायर ओ.ए. सं. 1864/2009 (फिलहाल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ को स्थानान्तरित) में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अंतिम आदेशों के अध्याधीन है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

सं. 6(688)/2010-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप निदेशक (इन-सीटू/वैयक्तिक), श्री बैशाखू राम कर्मचारी कोड सं. 337 अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2010 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(197)/82-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', श्री आशीष सान्याल (कर्मचारी कोड सं. 79) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 नवम्बर 2010

सं. 405/2010 (फा. 8/12/2005-प्रशा. II)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस मंत्रालय की केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री डी. बी. गांगुली, जोकि इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में तैनात थे, दिनांक 31.10.2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 6 जनवरी 2011

सं. 9/2011 (फा. सं. 5/2/2007-प्रशासन-II)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2010 के आदेश सं. 4/2/2010-सीएस.आई (डी) के तहत केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन सूची वर्ष-2010 के लिए चयन ग्रेड में उनकी पदोन्नति (उपसचिव) होने के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में तैनात श्री के. रामाकृष्णन को दिनांक 03.01.2011 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान तथा 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उप सचिव नियुक्त करती हैं।

2. उप सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक उप सचिव (फिल्म) के रूप में मुख्य सचिवालय के फिल्म विंग में तैनात किया जाता है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

सं. 12/2011 (फा. सं. 7/1/2007-प्रशासन-II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2010 के का.ज्ञा. सं. 20/31/2010-सीएस के तहत तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में इस मंत्रालय में उनका नामांकन

होने के परिणामस्वरूप तथा विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, के कार्यालय से उन्हें कार्यमुक्त कर दिए जाने के पश्चात् श्रीमती कैलाश गोसाई, निजी सचिव को दिनांक 31.12.2010 (पूर्वाह्न) से पे-बैंड-3 (15,600--39,100/- + 6,600/- रु. का ग्रेड पे) में तदर्थ आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रमुख निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें अगले आदेशों तक आकाशवाणी महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

2. प्रमुख निजी सचिव के ग्रेड में उनकी पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें अनिश्चित समय तक इस ग्रेड में कार्य जारी रखने अथवा प्रमुख निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2011

सं. 02/2011 (फा. सं. ए-38012/2/2010-प्रशा. I--श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी. एस. एल. 4402) के चयन

ग्रेड के श्री सुदर्शन कुमार कपूर, उप सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2010 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

सं. 04/2011 (फा. सं. ए-38013/3/2010-प्रशा. I--श्रम और रोजगार मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री महेश्वर पाण्डेया, अनुभाग अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

सं. 05/2011 (फा. सं. ए-38013/3/2010-प्रशा. I--श्रम और रोजगार मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सुश्री मीनू रामराखिनी, तदर्थ अनुभाग अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुई।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 10th January 2011

No. RS.43/1/2010/5-Perl—Smt. Rita Mathur has been appointed to the grade of Deputy Director in the Rajya Sabha Secretariat on re-employment basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-, plus usual allowances as admissible under the rules, with effect from the forenoon of 10th January, 2011.

2. The period of re-employment of Smt. Rita Mathur would be co-terminus with the tenure of the Inquiry Committee headed by the Hon'ble Justice Aftab Alam constituted by the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha under the Judges (Inquiry) Act, 1968 or until further orders, whichever is earlier. The other terms of her re-employment would be as per the standard terms of re-employment applicable to Government employees.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 13th January 2011

No. RS.42/2/2010/7-Perl.—In supersession of Notification No. Rs. 42/2/2010/116-Perl. dated 24th December, 2010, the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Sharada Subramaniam (IA&AS-1991) as Joint Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/-, plus usual allowances as admissible under the rules, on deputation basis for a period of 3 years, with effect from the forenoon of 22nd December, 2010 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 9th December 2010

No. A-19012/01/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Upendra Tripathy, IAS (KN:80), Joint Secretary in the Cabinet Secretariat to the post of Additional Secretary, on in-situ basis, with effect from the afternoon of 6th December, 2010 by temporarily upgrading the post in pursuance of Department of Personnel and Training's (DoPT) Order No. 7/14/2010 EO(SM.I) dated 6.12.2010.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 11th January 2011

No. A-20/G-B/189—Shri Mukesh Chandra Saxena, Assistant Accounts Officer in the Ministry of Water Resources, is hereby appointed as Assistant Accounts Officer in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with corresponding Grade Pay of Rs. 4,800/-, in the Secretariat of the Election Commission of India, on deputation basis, w.e.f. 04.01.2011 (A/N), for a period of one year or till further orders, whichever is earlier.

2. The pay and allowances of Shri Mukesh Chandra Saxena will be regulated in accordance with the Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay), dated 17th June, 2010.

S. B. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 7th January 2011

No. A-12025/1/2007-Admn.I(L.D.)—Shri R. K. Pattanayak, Assistant Legislative Counsel who was appointed to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) on ad hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice with effect from the forenoon of 2nd November, 2010 stands reverted to his substantive post of Assistant Legislative Counsel with effect from the forenoon of 31st December, 2010.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th January 2011

No. A-32012/3/2010-Admn. I (LA)—The President is pleased to appoint the following Assistant Legal Advisers (Grade-IV of service cadre of Legal Adviser of the Indian Legal Service) as Deputy Legal Adviser (Grade-III of service cadre of Legal Adviser of the Indian Legal Service) on regular basis, in the Pay Band-3, [Rs. 15,600—39,100/-] plus Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. the forenoon of 6th January 2011 or until further orders :—

- (i) Sh. G. C. Mishra
- (ii) Sh. G. S. Yadav
- (iii) Sh. P. K. Saha
- (iv) Sh. M. S. Tariq

2. They will be on probation for a period of two years with effect from the forenoon of 6th January 2011. Their probation period may be extended at the discretion of the competent authority, if necessary. Their continuance in the grade will be subject to satisfactory completion of the probation and availability of vacancy in the grade of Deputy Legal Adviser.

M. K. SHARMA, Jr. Secy.
and Legal Advisers (Admin)

No. A-32012/6/2009-Admn.I (LA)—On expiry of her term of ad hoc appointment as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of the Indian Legal Service) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice Smt. Kusum Lata Singh, stands reverted to her substantive post of Superintendent (Legal) with effect from the afternoon of 5th January, 2011.

2. The President is pleased to appoint Smt. Kusum Lata Singh, Superintendent (Legal) to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of the Indian Legal Service) in the Pay

Band-3 [Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-] in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, purely on ad hoc basis for a period of six months or till an eligible officer is appointed on regular basis w.e.f. the forenoon of 07.01.2011 [after giving one day technical break on 06.01.2011] or untill further orders, whichever is earlier.

3. This ad hoc appointment will neither bestow on her any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Assistant Legal Adviser nor the services so rendered by her will count for the purpose of seniority in the higher grade.

M. K. SHARMA, Jt. Secy & Legal Adviser

New Delhi, the 30th December 2010

No. A-32012/2/2009-Admn.I (LA)—The President is pleased to appoint Shri S. K. Mohapatra, Additional Legal Adviser (Grade-II of service cadre of Legal Adviser of the Indian Legal Service), Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, to the grade of Joint Secretary & Legal Adviser (Grade-I of service cadre of Legal Adviser of the Indian Legal Service), in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. the forenoon of the 29th December, 2010 and until further orders.

G. D. SHARMA, Under Secy.

No. A-32012/2/2009-Admn.I (LA)—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, Additional Legal Adviser (Grade-II of service cadre of Legal Adviser of the Indian Legal Service), Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, to the grade of Joint Secretary & Legal Adviser (Grade-I of service cadre of Legal Adviser of the Indian Legal Service), in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. the forenoon of the 28th December, 2010 and until further orders.

G. D. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 7th January 2011

No. A-32014/03/2010-Admn.IV(LA)—The President is pleased to appoint Shri V. K. Gupta, a regular Assistant working in the CSS Cadre Unit of Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) as Section Officers on ad hoc basis in the PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the afternoon of 31st December, 2010 to 31st March, 2011 or till the regular Section Officer are available, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri V. K. Gupta, Section Officer will be governed by the terms and conditions contained in Departments of Personnel and Training's O. M. No. 6/5/2009-CS.I(S) dated 30th August, 2010.

ASHA SOTA, Under Secy.

The 13th January 2011

No. A-32013/4/2006-Admn.IV(LA)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 02.08.2010

& 11.08.2010 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 20/31/2010-CS-II(A) dated 31.12.2010, the President is pleased to extend the term of appointment of the following Private Secretaries as Principal Private Secretary on ad hoc basis against regular vacancy in the CSSS cadre of the Ministry of Law & Justice for a period upto 31.03.2011 or till regular PPSs become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name
1.	Shri A. S. Malhotra
2.	Ms. Teresa Kujur

2. The above said ad hoc appointment will not bestow on them any claim for regular promotion to the grade of PPS nor will the service rendered by them on ad hoc basis will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

ASHA SOTA, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 3rd January 2011

No. K. 11019/2/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Ranjan Gogoi, seniormost Judge of the Punjab & Haryana High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 4th January, 2011 consequent upon the retirement of Justice Shri Mukul Mudgal, Chief Justice of Punjab & Haryana High Court.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 12th January 2011

No. K. 13029/06/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Justice Shri Ranjan Gupta, (ii) Justice Shri Ajay Tewari, (iii) Justice Shri Jitendra Kumar Chauhan, and (iv) Justice Shri Augustine George Masih, Additional Judges of Punjab & Haryana High Court, to be Judges of that High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their offices.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 14th January 2011

No. K. 13013/05/2010-US.I—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Shri Gurijala Krishna Mohan Reddy, and (ii) Shri Kolla Surya Appa Rao, to be Additional Judges of Andhra Pradesh High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their offices.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 31st December 2010

No. 16013/29/2008-IPS.II—Whereas, Shri Rahul Rai Sur, IPS (MH : 81) was appointed as Investigator in the Office of International Overseas Service, an United Nation Organization, New York, on 15.7.1997 on deputation basis for a period of six months. His deputation period was extended from time to time and the last extended period of deputation was upto 31.05.2004. The request made by him for extension of his deputation beyond 31.05.2004 was considered by the Ministry of Home Affairs and has not been agreed to. He was advised by this Ministry vide letter dated 04.09.2004 to join his duty by 31.10.2004;

And Whereas, Shri Rahul Rai Sur has not responded to the above communication, a notice was issued to him on 02.03.2005 as to why the provisions of Rule 7(2)(c) of the All India Services (Leave) Rules, 1965, i.e., deemed resignation should not be invoked on him for his unauthorized absence beyond the approve period of his foreign service.

And Whereas, the said Shri Rahul Rai Sur has not replied to the above notice, vide this Ministry's letter dated 20.05.2005, he was asked to furnish his explanation. He was afforded with a last opportunity to submit his reply within 10 days from the date of receipt of the said letter failing which, action will be taken against him invoking the provisions of the aforesaid Rules;

And Whereas, the said Shri Rahul Rai Sur, IPS choose to ignore the said communication also;

And Whereas, the matter was further considered and it was found desirable to invoke the provisions of rule 7(2)(c) ibid in his case in view of his continued unauthorized absence and non-response to this Ministry's communications;

And Whereas, the President, in exercise of the powers conferred by provisions of Rule 7(2)(c) ibid, issued a notification of his deemed resignation on 26.09.2005. Shri Rahul Rai Sur stood relieved from the Indian Police Service from the date of the notification;

And Whereas, Shri Rahul Rai Sur filed an application (O.A. No. 1505/2007) before the Central administrative Tribunal, New Delhi against the aforesaid notification of his deemed resignation;

And Whereas, the Hon'ble Tribunal vide its orders dated 01.04.2008, set aside the above notification and directed the Respondents to proceed against the application in accordance with the law;

And Whereas, this Ministry had filed an appeal (Writ Petition No. 6512/2008) before the High Court of Delhi against the aforesaid orders of the Tribunal;

And Whereas, the High Court vide its orders dated 08.11.2010 observed that non-service of letter dated 04.09.2004 has resulted prejudice to Shri Rahul Rai Sur. The High Court has set aside the order dated 26.09.2005 with the modification and direction that Shri Rahul Rai Sur be treated

as having voluntarily retired w.e.f. 31.10.2004. The High Court further directed that the necessary pensionary dues payable to him be paid within a period of three months from the date of the order failing which, the amount payable would be charged interest @ 6% per annum reckoned after three months till the date of payment;

And Whereas, the matter was examined further by the Competent Authority in the light of the aforesaid orders of the High Court dated 08.11.2010, and after considering all aspects related to the case, the Competent Authority has decided that the said Shri Rahul Rai Sur, IPS be treated as having voluntarily retired from Government service w.e.f. 31.10.2004 and necessary pensionary dues be paid to him;

Now, Therefore, the Competent Authority orders that Shri Rahul Rai Sur, IPS (MH : 81) be treated as having voluntarily retired from Government service with effect from 31.10.2004. He stood relieved from the Indian Police Service from this date. It is notified accordingly.

(For and on behalf of the President of India)

K. NATARAJAN, Under Secy.

New Delhi-110001, the 14th January 2011

No. I-18011/11/2010-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Tamil Nadu with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	A. Saravanan, IPS (TN : 2007)	18.08.2009
2.	S. Xavier Dhanraj, IPS (TN : 2007)	18.08.2009
3.	Anil Kumar Giri, IPS (TN : 2007)	19.08.2009
4.	Pravesh Kumar, IPS (TN : 2007)	10.12.2009

RAJINDER KUMAR, Section Officer

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 12th January 2011

No. A-19011/1/2011/ISC—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar Nair (CSL No. 4529), as Deputy Secretary (Central Secretariat Service) [SL/2010], Interstate Council Secretariat, Ministry of Home Affairs on regular basis with effect from the forenoon of 10th January, 2011.

B. M. DAVID, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 4th January 2011

No. 13017/37/2010-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service

(Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Punjab and the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby accords approval for the inter cadre deputation Shri Vijoy Kumar Singh, IAS (PB : 90) from Punjab to AGMU cadre for appointment to the post of Finance Secretary, Chandigarh Administration for a period of three years.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 17th January 2011

No. 14015/38/2010-AIS (I)-B—In compliance of the order dated 22.03.2010 of the Hon'ble CAT, Chandigarh Bench in O.A. No. 327/2009 filed by Shri Dhruv Vashist the Review Selection Committee which met on 22nd November, 2010 to consider the case of Shri Vashist has included his name at Sl. No. 2A below the name of Smt. Purnima Chauhan and above the name of Shri K. R. Bharti in the Select list of 2008 originally prepared on 9th December, 2009 and, now pursuant to the recommendations of the above Review Selection Committee as approved by UPSC on 4th January, 2011 and in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri Dhruv Vashist a member of the State Civil Service of Himachal Pradesh to the Indian Administrative on probation until further orders and to allocate him to Himachal Pradesh Cadre of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 18th January 2011

No. A-32013/3/2010-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri V. M. Rathnam, CSS, as Under Secretary in the Pay Band-3 (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (Grade Pay) in the Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 29th November, 2010 until further orders.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

No. A-32013/3/2010-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Sarita Nair, CSS, as Under Secretary in the Pay Band-3 (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (Grade Pay) in the Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 1st December, 2010 until further orders.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd August 2010

No. 9/PB-I/2010—In pursuance of Ministry's Order No. Q/Vig/842/04/2003 dated 5th August, 2010, Shri Rajan, an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) has been retired compulsorily from service w.e.f. 19th June, 2009.

2. This issues in supersession of this Ministry's Gazette Notification No. 10/PB-I/2009 dated 10th July, 2009.

S. K. VERMA, Under Secy. (PB)

New Delhi, the 27th August 2010

No. Q/PB-I/584/07/2010—The President is pleased to appoint the undermentioned officer(s) belonging to Grade-IV of General Cadre IFS (B) and Grade-II of Cypher Cadre of IFS (B) to officiate in Integrated Grade-II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/3/2010 dated 9th August, 2010 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of Promotion
	(Shri/Smt.)		
1.	S. Mahesh	06.08.1961	14.07.2010
2.	Madho Ram	30.12.1950	14.07.2010
3.	M. K. Jain	26.10.1960	14.07.2010
4.	P. C. George	04.04.1952	14.07.2010
5.	O. P. Srivastava	10.05.1956	14.07.2010
6.	Bimla Choudhary	27.07.1953	14.07.2010
7.	K. P. Sahu	20.09.1952	14.07.2010
8.	D. S. Bist	25.07.1959	14.07.2010
9.	Satyavrat Kadyan	10.11.1954	14.07.2010
10.	Mahavir Singh	14.07.1956	14.07.2010
11.	Kuldip Kumar Sharma	13.06.1957	14.07.2010
12.	Anil Kumar Kapoor	12.03.1960	14.07.2010
13.	Ms. Rama Sharma	05.02.1957	14.07.2010
14.	Gyan Prakash Aggarwal	17.09.1957	14.07.2010
15.	Deepak Kumar Mehta	29.12.1954	14.07.2010
16.	Hillol Kumar Sinha	02.10.1959	14.07.2010
17.	Dilip Kumar Chawla	14.08.1957	14.07.2010
18.	Ms. Bani Mukherjee	01.06.1957	14.07.2010
19.	Mohanan K. S.	01.11.1953	14.07.2010
20.	Ms. Amrita Kohli	16.05.1959	14.07.2010
21.	Ms. Indu Singh Chhikara	23.12.1955	14.07.2010
22.	Brahm Kamal	16.07.1957	14.07.2010
23.	Mangala Prasad Maithani	25.11.1958	14.07.2010
24.	Prem Kumar	07.07.1957	14.07.2010
25.	Anil Kant Sharma	09.10.1957	14.07.2010
26.	Vinod Kumar Verma	11.12.1955	14.07.2010
27.	N. Soman	24.03.1952	14.07.2010
28.	Gopal Krishan	09.07.1955	14.07.2010
29.	Sujit Biswas	24.11.1966	14.07.2010

2. The abovementioned officers have assumed charge of the post of Selection Officers with effect from 14th July 2010.

M. B. VERMA, Administrative Officer (PB-I&III)

The 23rd September 2010

No. Q/PB-I/584/07/2010—The President is pleased to appoint the undermentioned officer(s) belonging to Grade-IV of General Cadre IFS (B) and Grade-II of Cypher Cadre of IFS (B) to officiate in Integrated Grade-II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/3/2010 dated 9th August, 2010 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of Promotion
1.	Sh. Sanjeev Kumar	05.11.1965	14.07.2010
2.	Sh. Inder Kumar Sharma	15.06.1953	14.07.2010

2. The abovementioned officers have assumed charge of the post of Section Officers with effect from 14th July 2010.

M. B. VERMA, Administrative Officer (PB-I&III)

The 6th October 2010

No. 34/PB-I/2010—The President is pleased to appoint the undermentioned officer(s) belonging to Grade-IV of General Cadre IFS (B) and Grade-II of Cypher Cadre of IFS (B) to officiate in Integrated Grade-II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/3/2010 dated 9th August, 2010 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of Promotion
	(Shri/Smt.)		
1.	Sidharth S. Kain	02.01.1958	14.07.2010
2.	Anil Kumar Bhatia	18.10.1955	18.08.2010

2. The abovementioned officers have assumed charge of the post of Section Officers with effect from the date indicated against their names.

M. B. VERMA, Administrative Officer (PB-I&III)

The 12th October 2010

Sub. :— Corrigendum to Notification dated 27th August, 2010

No. 35/PB-I/2010—In the Notification No. Q/PB-I/584/07/2010 dated 27th August, 2010, the name of the Officer at Sl. No. 22 may be corrected to read as Shri Braham Kamal.

M. B. VERMA, Administrative Officer (PB-I & III)

New Delhi, the 4th January 2011

No. 1/PA-II/2011—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Bhatnagar, retired from Junior Administrative Grade of Indian Foreign Service on the afternoon of 31st December, 2010.

KARTIK PANDE, Under Secy.

No. 2/PA-II/2011—On attaining the superannuation, Shri Ramesh Kumar, retired from Junior Administrative Grade of Indian Foreign Service on the afternoon of 31st December, 2010.

KARTIK PANDE, Under Secy.

No. 3/PA-II/2010—On attaining the age of superannuation, Shri M. K. Gupta, retired from Grade-I of Indian Foreign Service, Branch (B) on the afternoon of 31st December, 2010.

KARTIK PANDE, Under Secy.

The 5th January 2011

No. Q/PA-II/578/48/10—On the basis of the results of the Civil Services (Main), Examination, 2009, held by the Union Public Service Commission, New Delhi, the President is pleased to appoint the following 25 (Twenty Five) candidates as Indian Foreign Service (IFS) Probationers in the Ministry of External Affairs, New Delhi, with effect from the date shown against each :—

Sl. No.	Name of Candidates	Date of Appointment
1	2	3
	(Shri/Smt.)	
1.	Saswati Dey	30th August, 2010 (FN)
2.	Siddharth Malik	30th August, 2010 (FN)
3.	Rohit Mishra	30th August, 2010 (FN)
4.	Mohd. Shahid Alam	30th August, 2010 (FN)
5.	Devi Gopinath	30th August, 2010 (FN)
6.	Nishi Kant Singh	30th August, 2010 (FN)
7.	Patel Yatinkumar Shantilal	30th August, 2010 (FN)
8.	Eldos Mathew Punnoose	30th August, 2010 (FN)
9.	Maitrey Kulkarni	30th August, 2010 (FN)
10.	Yeola Niteen Subhash	30th August, 2010 (FN)
11.	Soumya Nair	30th August, 2010 (FN)
12.	C. Ramkumar	30th August, 2010 (FN)
13.	Nitin Pramod	30th August, 2010 (FN)

1	2	3
	(Shri/Smt.)	
14.	Badhe Pawankumar Tulshidas	30th August, 2010 (FN)
15.	Vadhwana Rohitkumar Rameshchan	30th August, 2010 (FN)
16.	Sivaguru M.	30th August, 2010 (FN)
17.	Surendra Kumar Adhana	30th August, 2010 (FN)
18.	Lakshmi Kanta Kumbhar	30th August, 2010 (FN)
19.	Vishakha Yaduvanshi	30th August, 2010 (FN)
20.	Rajesh N. Naik	30th August, 2010 (FN)
21.	Pooja V. Vernekar	30th August, 2010 (FN)
22.	Sushil Prasad	30th August, 2010 (FN)
23.	Mijito Vinito	30th August, 2010 (FN)
24.	Varun Jeph	30th August, 2010 (FN)
25.	Vartika Rawat	30th August, 2010 (FN)

2. On their appointment, the above mentioned twenty five officers assumed charge as Indian foreign Service Probationers (2010), with effect from the date shown against each officer.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 10th January 2011

No. D-III/460/CF-46/2010—The President is pleased to recognize the appointment of Mr. Zhang Lizhong as Consul General of the People's Republic of China in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Zhang Lizhong comprises the State of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa and West Bengal with the seat in Kolkata.

S. INBASEKAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi-110021, the 13th January 2011

No. OI.11016/191/2010-P&C—In terms of Directives issued by Central Information Commission, vide No. CIC/AT/D/10/000111 dated 15.11.2010 under Section 19(8)(a) of RTI Act, 2005, for time bound implementation of Section 4 obligations under the Act, Joint Secretary (Diaspora Services) in the Ministry of Overseas Indian Affairs is designated as the Transparency Officer for the Ministry of Overseas Indian Affairs.

M. SATHYA BABU, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 25th November 2010

No. 110 (F. No. A-19013/30/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Vatsa (IRS : C&CE) as Technical Officer in the Central Board of Excise & Customs of the Department of Revenue w.e.f. 19.11.2010 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 2nd December 2010

No. 111 (F. No. A-38011/4/2010-Ad.I)—Smt. Chitra Gouri Lal, an Officer of the Indian Revenue Service (C&CE : 1974), posted as Member, CBEC in the Department of Revenue retired from Government Service on 30th November 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 112 (F. No. A-38011/5/2010-Ad.I)—Shri V. Sridhar, an Officer of the Indian Revenue Service (C&CE : 1973), posted as Chairman, CBEC in the Department of Revenue retired from Government Service on 30th November 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 113 (F. No. A-19011/19/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Dhingra, IRS (C&CE : 75) as Member of the Central Board of Excise and Customs (CBEC) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 30.11.2010 (AN) and until further orders or his superannuation, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Rajesh Dhingra, IRS (C&CE : 75), as Member, CBEC is subject to the final outcome of the Original Application No. 537 of 2008 filed by Shri M. Dwivedi, Chief Commissioner (Retd.) before the Central Administrative Tribunal (CAT), Mumbai Bench (now transferred to the Principal Bench, New Delhi).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 27th December 2010

No. 115 (F. No. A-19011/20/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri V. K. Garg, IRS (C&CE : 83) as Joint Secretary (TRU-II) in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 22.12.2010 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 6th January 2011

No. A-22011/2/2008-Admn.II—In pursuance of O.M. No. 32015/4/2010-CAS dated 20.12.2010 of Department of Expenditure (CAS), the President is pleased to continue the ad hoc appointment of the following Section Officers upto 31.03.2011, or till the regular Section Officer are made available, whichever is earlier, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs :—

S. No.	Name of Officers
--------	------------------

- | | |
|-----|---------------------|
| | (Shri/Smt.) |
| 1. | Rita Sachdeva |
| 2. | Y. Y. Parate |
| 3. | Swaran Rudra |
| 4. | Sadhna Sharma |
| 5. | Neelam Sibal |
| 6. | Dayal Kumari Kalra |
| 7. | Sanjay Kumar Jha |
| 8. | Sarita Gulati |
| 9. | Bhaskar Chakrabarti |
| 10. | Bhola Nath Saini |
| 11. | Manoj Manu |
| 12. | J. L. Jain |
| 13. | Neera Budhiraja |
| 14. | Ashok Kumar |
| 15. | K. L. Meena |
| 16. | Ramesh Prasad |
| 17. | E. Kujur |
| 18. | Satinder Jit Kaur |
| 19. | Sikha Das |
| 20. | Sunil Kumar Mandi |
| 21. | Santosh Kumar |
| 22. | S. Subramoniam |
| 23. | Hriday Nand Sah |

2. The ad hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- a. Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

- b. Ad hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DOPT.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 12th January 2011

No. A. 19011/01/2011-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Sharma, (ICAS : 2000) as Deputy Secretary Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 3rd January, 2011 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 13th January 2011

No. A-12011/6/2009-Admn.II—In pursuance of O.M. No. 6/9/2011-CS.I(S), dated 16.12.2010 & 31.12.2010 of Department of Personnel & Training and O.M. No. A-32015/4/2010-CAS, dated 05.01.2011 of Cadre Administration Section, Department of Expenditure, the President is pleased to appoint the following Assistants of Central Secretariat Services of Finance Cadre, As Section Officer on ad hoc basis in the Pay Band of (PB-2); Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. date mentioned against their names :—

S. No.	Name	Date of joining
1.	Smt. Neelam Gandhi	30.12.2010 (FN)
2.	Smt. Pratibha Sharma	30.12.2010 (FN)
3.	Shri D. K. Asija	31.12.2010 (AN)

2. The ad hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) The period of ad hoc promotion would be upto 31.03.2011 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier.
- (ii) Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS.

- (iii) Ad hoc arrangement will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officers) join duty.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

No. A-12011/05/2010-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 20/31/2010-CS.II dated 30.11.2010 and Department of Expenditure (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 31.12.2010, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries of the CSSS Cadre as Principal Private Secretary in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (G.P.) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad hoc basis w.e.f. date(s) mentioned against their name for the period upto 30.6.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier :—

S. Name of the No. Officer	Depts. where they were working	Date of appointment as PPS in Department of Economic Affairs
-------------------------------	-----------------------------------	--

(S/Shri)

- | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1. A. K. Prasad | Planning Commission | 24.12.2010 (FN) |
| 2. Rajinder Kumar | Urban Development | 27.12.2010 (FN) |

2. The promotion of the above mentioned officers is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the post of PPS.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 31st December 2010

No. PFG/2182/Ad.I—Shri J. D. Sharma, Deputy Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government service with effect from the afternoon of the 31st December, 2010.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

The 6th January 2011

No. A-12026/4/2008-Admn.I—The President is pleased to extend the appointment of the following permanent Assistants of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Section Officer on purely ad hoc basis upto 31st March, 2011 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

1. Shri D. C. Kaim
2. Shri Sharad N. Hulale
3. Smt. Usha Gill
4. Shri Narender Prakash
5. Shri Praveen Chander Sharma
6. Smt. Vijay Kharat
7. Shri C. M. Kochhar
8. Shri Sunil Kumar
9. Shri T. Beck

2. The ad hoc promotion of the above officials will not bestow on them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

The 10th January 2011

No. A-12026/9/2010-Admn.I—The President is pleased to appoint the following permanent Assistant of CSS to the grade of Section Officer of the CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) on purely ad hoc basis w.e.f. the date mentioned against their name initially upto 31st March, 2011 or till regular incumbents become available, or till further orders, whichever is earlier :—

S. Name No.	Date of joining
1. Sh. K. J. Bhatt	30.12.2010 (FN)
2. Ms. Sangita Toppo	31.12.2010 (AN)
3. Sh. Promod Kumar Verma	31.12.2010 (AN)

2. The ad hoc promotion of the above officials will not bestow on them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

The 11th January 2011

No. A-12026/8/2010-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Jagdish Chander, regular Under Secretary of Central Secretariat Service to the Selection Grade (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service against the Select List year 2010 in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 31st December, 2010 and until further orders.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110 003, the 12th January 2011

No. 9/9/2010-Admn.—In pursuance of Department of Expenditure (Cadre Administration Section)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 21st December, 2010, read with Department of Personnel & Training's O.M. No. 20/31/2010-CS.II(A) dated 30.11.2010, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Kukreja, a regular Steno Grade A&B (Merged) of CSSS (Private Secretary), on promotion to the post of Principal Private Secretary in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade of Rs. 6,600/- on ad-hoc basis in the Department of Disinvestment.

2. Shri Kukreja has assumed charge of the post and is taken on the rolls of this Department with effect from the forenoon of 10th December, 2010 for a period upto 30th June, 2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

3. The aforesaid promotion of the above officer is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to him to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the post of PPS.

ASHISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 7th January 2011

No. A-32013/1/2010-Cadre—In pursuance to DOP&T's Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D), dated December 29, 2010 and consequent upon her inclusion in the Supplementary Select List of Selection Grade for the year 2010, vide DOP&T's O. M. No. 4/3/2010-CS.I(D), dated November 3, 2010, the President is pleased to appoint Smt. Sneha Prabha Madan, as Deputy Secretary of CSS on regular basis with effect from the forenoon of January 3, 2011.

2. The above promotion is subject to final orders of Hon'ble CAT, in OA No. 1864/2009, presently pending before the Hon'ble CAT, Kolkata in the matter relating to Ms. Garima Singh Vs UOI & Ors.

3. Smt. Sneha Prabha Madan, Deputy Secretary, is posted to DGS&D.

AJAY KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 12th January 2011

No. A. 45011/3/2010/E.I.—Consequent upon their transfer on their promotion as Section Officer on ad-hoc basis and in pursuance of the Department of Personnel & Training O. M. No. 6/9/2010-CS.I(S) dated the 31.12.2010, the following Assistants of the CSS Cadre of the Department of Post, are promoted to the grade of Section Officer on purely ad-hoc basis in the CSS Cadre of this Department with effect from the afternoon of 31.12.2010 for a period up to 31.03.2011 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Place of posting
1.	Shri V.S.V. Pillai	DIPP
2.	Shri Rohtash Singh	DHI

The appointments ordered above have been made purely on ad-hoc basis and do not confer any right upon the officers to continue in the same post indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority etc. in the Section Officers grade of CSS. The ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers Grade are available either through Seniority quota or Limited Departmental Competitive Examination. In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre allotted to them by DoP&T.

L. K. SHARMA, Under Secretary

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 7th January 2011

No. A.60011/38/2007-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 2/7/2010-EO(M.M.I) dated 22.12.2010, the President is pleased to appoint Dr. Neeraj Mittal, IAS (TN:92), as Director in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, for a period upto 04.06.2015, w.e.f. the afternoon of 31st December, 2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 8th October 2010

No. A-12011/6/2010-HR-II.—The President is pleased to appoint Smt. Lalitha Das of Central Secretariat Service as Deputy Secretary on regular basis in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. the Forenoon of 27.08.2010 in pursuance of DoPT's Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 27.08.2010.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 18th October 2010

No. A-32011/01/2010-HR-II.—The President is pleased to appoint Sh. P. Bairagi Sahu, Section Officer as Under Secretary on ad hoc basis in the Department of Fertilizers w.e.f. 10.09.2010 (A/N) upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders subject to the terms and conditions contained in DoPT's Order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 03.09.2010.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 19th October 2010

No. A-23011/16/2010-HR-II.—The President is pleased to appoint Smt. Shashi Saxena as regular Section Officer in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800 with Grade pay of Rs. 4,800/-) in the combined cadre of Deptt. of Fertilizers w.e.f. 03.09.2010, consequent upon her inclusion in the Section Officer Select List for the year 2008 against seniority quota vide DoPT's OM No. 6/4/2010-CS-I(S) dated 26.07.2010.

2. The officer is deemed to have been promoted w.e.f. 01.07.2008 for the purpose of fixation of pay on notional basis. The actual benefits, however, would be available from the date, the officers are so appointed to the grade of Section Officer and assumes the charge of the post.

3. The appointment shall be subject to outcome of court case No. 13245-60/2005 filed by Sh. Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi, Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Sh. Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi, CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-23011/16/2010-HR-II.—The President is pleased to appoint Sh. S. K. Kaushik as regular Section Officer in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800 with Grade pay of Rs. 4,800/-) in the combined cadre of Deptt. of Fertilizers w.e.f. 03.09.2010, consequent upon his inclusion in the Section Officer Select List for the year 2008 against seniority quota vide DoPT's OM No. 6/4/2010-CS-I(S) dated 26.07.2010.

2. The officer is deemed to have been promoted w.e.f. 01.07.2008 for the purpose of fixation of pay on notional basis. The actual benefits, however, would be available from the date, the officers are so appointed to the grade of Section Officer and assumes the charge of the post.

3. The appointment shall be subject to outcome of court case No. 13245-60/2005 filed by Sh. Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi, Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Sh. Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi, CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 26th October 2010

No. A-19011/21/2006-HR-II.—The President is pleased to appoint Sh. Gautam Chatterjee, Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (currently on deputation to Telecom Dispute Settlement & Appellate Tribunal) in the Senior Selection Grade (Director), consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Select List of Central Secretariat Service and grant of pro-forma promotion as Director w.e.f. 21.09.2010 under Next below rule vide DoPT's Office Order No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 24.09.2010.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 11th January 2011

No. A-38011/8/2010-HR-II.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri K. K. Padmananbhan, Deputy Secretary stands retired from Government Service with effect from 31.12.2010.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 6th January 2011

No. A-32015/1/2009-Estt.—In pursuance of DOP&T's OM No. 20/31/2010-CS-II dated 30.11.2010, the President is pleased to appoint Shri B.L. Chibber, a substantive Stenographer Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) of CSSS cadre of the Department of Health and Family Welfare to the post of Principal Private Secretary of the CSSS cadre of the Ministry of Coal, in the pay structure PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 31st December 2010, until further orders.

2. The above appointment is being made purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of PPS of CSSS. The Government reserves the right to terminate the above ad hoc appointment at any point of time without giving any reason therefor.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 20th December 2010

No. A-18011/117/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 04.11.2010, the President is pleased to appoint Shri V. K. Wadhwa, Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis against Select List of Deputy Secretary of CSS for the year 2010 in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the forenoon of 26th November, 2010, until further orders.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES
(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi-110011, the 6th January 2011

No. A. 45011/13/2005-Admn.—In terms of Section 5(2) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, and in supersession of earlier Notifications and amendments issued on the subject matter, the following officers of Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises are hereby designated as Central Public Information Officer (CPIO) and Appellate Authority in respect of the Department as a whole:

1. CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Shri Manjit Kumar

Deputy Secretary

Tel. No. 23061565

E-mail I.d.: kumar.manjit@nic.in

Address : Room No. 61, Udyog Bhavan, Rafi Marg,
New Delhi-11.

2. APPELATE AUTHORITY

Shri Ambuj Sharma

Joint Secretary

Tel. No. 23063733

E-mail I.D.: ambuj.sharma@nic.in

Address : Room No. 183, Udyog Bhavan, Rafi Marg,
New Delhi-11.

MOHD. NASIM KHAN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 5th January 2011

No. A.01/08/2006-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint the following Scientists 'C' in the Department of Science & Technology as Scientist 'D' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- on their in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme with effect from 01.01.2011 and until further orders:—

S. No.	Name
1.	Shri Doyil T. Vengayil, Sc.C
2.	Shri S. K. Aggarwal, Sc.C

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A.01/08/2006-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint the following Scientists 'B' in the Department of Science & Technology as Scientist 'D' in the Pay Band of

Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- on their in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme with effect from 01.01.2011 and until further orders:—

S. No.	Name
1.	Shri Rajinder Singh, Sc. B
2.	Shri J.B.V. Reddy, Sc.B

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A.01/08/2006-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint the following Scientists 'D' in the Department of Science & Technology as Scientist 'E' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay Rs. 8,700/- on their in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme with effect from 01.01.2011 and until further orders:—

S. No.	Name
1.	Shri Pamposh Kumar, Sc. D
2.	Shri Sudarshan Rao, Sc.D

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A.01/08/2006-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint the following Scientists 'E' in the Department of Science & Technology as Scientist 'F' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay Rs. 8,900/- on their in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme with effect from 01.01.2011 and until further orders:—

S. No.	Name
1.	Ms. Ritu Bhatnagar, Sc. E
2.	Smt. Nisha Mendiratta, Sc.E
3.	Dr. (Smt.) Rita Banerjee, Sc.E.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

The 7th January 2011

No. A-32011/02/03-Admn.I(A)—Consequent upon his promotion to the post of Senior Principal Private Secretary on ad hoc basis and nomination to the CSSS Cadre of Ministry of Science & Technology vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/31/2010-CS.II(A) dated 30.11.2010, the President is pleased to appoint Shri V. D. Ranjan, a regular PPS of CSSS cadre of Ministry of Home Affairs as Senior Principal Private Secretary (Sr.PPS) in the CSSS Cadre of the Ministry of Science & Technology (Department of Science & Technology) on ad hoc basis in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. the afternoon of 31.12.2010 for a period upto 31.03.2011 or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr.PPS.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
RESEARCH

New Delhi-110016, the 3rd January 2011

No. A-32019/03/2007-Estt.—The President is pleased to promote Sh. Indu Bhaskar, Sh. A. V. Chainulu, Sh. B. N. Sarkar and Sh. Vimal Kumar Varun from the grade of Scientist 'E' to the grade of Scientist 'F' in the pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/-+Rs. 8,900/- (Grade Pay) on in-situ basis under the modified Flexible Complementing Scheme in the Department of Scientific & Industrial Research with effect from 23rd December, 2010 and until further orders.

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 16th December 2010

No. 122012/12/2002-IFS.-II—In supersession of Ministry of Environment & Forests Notification of even number dated 02.03.2007 and No. 22012/13/2001-IFS.II dated 23.12.2008 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to make following appointments of the officers of State Forest Service of Haryana to the Indian Forest Service on the basis of Select Lists 1990, 1991-92, 1992-93 and allocate them to Haryana cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966:

Select List 1990

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	S. S. Sikriwal	20.10.1952
2.	Brij Bhushan Sharma	20.12.1938
3.	Mohinder Singh Sangwan	16.02.1955
4.	R. S. Joshi	07.10.1938
5.	R. S. Lamba	23.02.1957
6.	Vinod Kumar Jhajharia	02.01.1955
7.	S. S. Panwar	12.06.1938
8.	K. R. Bhatla	12.01.1940

Select List 1991-92:

Nil

Select List 1992-93

Nil

2. This is in compliance with Hon'ble High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh Order dated 04.03.2009 in CWP No. 3315/CAT/2007 filed by Shri D. K. Sinha & Others Vs. R. S. Lamba & Ors.

VIVEK SAXENA, Director

NATIONAL AFFORESTATION AND ECO-
DEVELOPMENT BOARD (NAEB)

New Delhi-110510, the 11th November 2010

No. 22-2/2010/NAEB-B-VI—Conequent upon acceptance of her notice for voluntary retirement dated 23.07.2010, Smt. Rita Tayal, Under Secretary in the National Afforestation and Eco-Development Board, Ministry of Environment and Forests stands retired from Government Service with effect from the forenoon of 01 November, 2010.

DEEPAK GROVER, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th January 2010

No. 2476/10-CHS-IV—Dr. Sushma Suri, Consultant (Obst. & Gynae), an officer of Non-Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service posted at CGHS Wing of Safdarjung Hospital expired on 23.10.2010.

LALIT KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 31st December 2010

No. A-12018/1/2007-DFQC [pt]—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee duly approved by the Union Public Service Commission, the President is pleased to promote Shri A. B. Ramteke, Biochemist to the post of Deputy Drugs Controller (India) in the Central Drugs Standards Control Organization of the Directorate General of Health Services in the revised pay structure PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-)+Grade Pay Rs. 7,600/- (Group 'A' Gazetted Non-Ministerial) in a regular capacity with effect from the 13th December, 2010 and until further orders.

2. The above promotion shall not affect his In-Situ promotion to the Scientist-4 level under the Department of Health In-Situ Promotion Rules, 1990 in any manner and he will continue to draw the same pay and allowances as hithertofore.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 14th January 2011

No. A-12025/302/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Raghvendra Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-)+Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 23rd January, 2010 until further orders. Dr. Raghvendra Kumar is posted as Medical Officer under Air Port Health Organisation, New Delhi.

O. P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 6th January 2011

No. 4-4/2006-Extn. (Pt.)—The President is pleased to continue the appointment of Shri S. M. H. Kazmi, Joint Director (FI), as Director (FI) G. C. S., Group 'A' Gazetted in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/-+Grade Pay Rs. 7,600/- in the Directorate of Extension, Deptt. of Agriculture & Cooperation, on ad-hoc basis for a period from 28.12.2008 to 27.12.2010 (ex-post-facto) and beyond 27th December, 2010 for a further period of six months i.e. w.e.f. 28th December, 2010 to 27th June, 2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

THOMAS VARGHESE, Director (Extension)

New Delhi, the 14th January 2011

No. 38017/1/2009-M.I.—Consequent upon his Voluntary Retirement, Shri V. Narayanaswamy, Director (CS), Directorate of Marketing & Inspection, Head Office, Faridabad retired from Government Service on 21.07.2010(FN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

No. 38017/1/2009-M.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. A. K. Chakrabarty, Marketing Officer (Gr.II), Directorate of Marketing & Inspection, Regional Office, Mumbai retired from Government Service on 31.07.2010 (AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

No. 38017/1/2009-M.I.—On attaining the age of superannuation, Shri D. R. K. Singh, Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection, Sub-Office, Rajkot retired from Government Service on 31.12.2010(AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

No. 38017/1/2009-M.I.—On attaining the age of superannuation, Shri K. P. Singh, Assistant Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, Head Office, Faridabad retired from Government Service on 31.12.2010(AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

No. 38017/1/2009-M.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. (Smt) Sajni Kumar, Assistant Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, Bangalore retired from Government Service on 31.08.2010(AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

No. 38017/1/2009-M.I.—Consequent upon his voluntary Retirement, Shri S. C. Sarkar, Dy. AMA (Gr.I), Regional Office, Directorate of Marketing & Inspection, Chennai retired from Government Service on 19.08.2010(FN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 12th January 2010

No. A-19012/8/2007-Estt.—Shri ABL Nigam, Assistant Director (OL) retired from the Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.12.2010(AN).

VANITA SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 14th January 2011

CORRIGENDUM

No. 1-6/2007-DD-IV—In the Notification No. 1-6/2007-DD-IV dated 23.09.2010 relating to appointment of Shri Harsh Bhal, IIS (1983) as Chairman-cum-Managing Director, National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC), Faridabad under the Ministry of Social Justice & Empowerment, his Pay Band of Rs. 37,000—67,000/- (PB-4) may be read as Rs. 37,400—67,000/- (PB-4).

S. K. PATTANAYAK, Director

New Delhi-110115, the 23rd September 2010

No. A-32014/02/2010-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 6/6/2009-CS, I (S) dated 07 June, 2010, the President is pleased to appoint the following substantive Assistants of this Ministry, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre (Group 'B' Gazetted) of the Ministry of Social Justice & Empowerment in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-), with

the grade pay of Rs. 4,800/-, on purely adhoc basis w.e.f. 14th September, 2010 (FN) upto 31st December, 2010 or till regular Section Officers are available, whichever is earlier :

- (i) Shri Vensi Devnani
- (ii) Shri A. K. Agrawal
- (iii) Shri Om Parkash
- (iv) Shri S. K. Bhalla
- (v) Shri Harbans Lal

2. This Ad hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy

The 29th October 2010

No. A-12022/8/2006-Estt.—Consequent on his inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2006 against seniority quota vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/1/2010-CS-I(S) dated 25th February, 2010, the President is pleased to appoint Shri K. K. Sharma, a substantive Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Road Transport & Highways to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service Cadre (Group 'B' Gazetted, Ministerial) of the Ministry of Social Justice & Empowerment in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/- with the Grade Pay of Rs. 4,800/-) with effect from the forenoon of 27.10.2010.

2. The appointment as above shall be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. OA-1083/2007 and MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. Union of India pending in CAT, Delhi, CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 31st December 2010

No. A-32013/03/2007-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List of 2010 for Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) and posting in this Ministry on promotion as Deputy Secretary on regular basis vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/2/2010-CSI(D) dated 4th November, 2010, the President is pleased to appoint Shri T. V. Atchut Ram, a substantive Grade-I (Under Secretary) officer of CSS to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) in the Ministry of Social Justice & Empowerment, w.e.f. 15.11.2010 (Forenoon).

2. The above promotion of the officer is subject to final orders of Hon'ble CAT in OA No. 1864/2009 filed before the Hon'ble CAT, Kolkata in the matter relating to Ms. Garima Singh Vs UOI & Ors (since transferred to the Principal Bench of CAT at New Delhi).

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st December 2010

No. 4 (688)/2001-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Shri Baisakhu Ram, Deputy Director (in-situ/personal) (E. Code : 337), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service on 31.12.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 4(197)/82-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Shri Ashis Sanyal, Scientist 'G' (Emp. Code No. 79) in the Department of Information Technology will retire from service with effect from afternoon of 31.12.2010.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 1st November 2010

No. 405/2010 (F. No. 18/12/2005-Admn. II)—On attaining the age of superannuation, Shri D. B. Ganguly, Section Officer of Central Secretariat Service of this Ministry, posted in the Main Sectt. of this Ministry, has retired from Government Service on 31.10.2010 (AN).

S. S. BEDI, Under Secy.

The 6th January 2011

No. 9/2011 (F. No. 5/2/2007-Admn. II)—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) for Select List Year-2010 of Central Secretariat Service, vide DoP&T's Order No. 4/2/2010-CS.I(D), dated 29.12.2010, the President is pleased to appoint Shri K. Ramakrishnan, posted as Under Secretary in this Ministry, as Deputy Secretary in the Selection Grade of Central Secretariat Service in Ministry of Information & Broadcasting, in the Scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 03.01.2011, until further orders.

2. On his appointment as Deputy Secretary, he is posted in Films Wing of the Main Sectt. as Deputy Secretary (Films) with immediate effect and until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

No. 12/2011 (F. No. 7/1/2007-Admn. II)—Consequent upon her nomination to this Ministry for appointment as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service on ad hoc basis vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 20/31/2010-CS. II dated 30.11.2010 and after having being relieved from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, O/o. Development Commissioner, Smt. Kailash Gosain, Private Secretary is appointed to the post of Principal Private Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting on ad hoc basis in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 31.12.2010 (FN). She is posted in DG : AIR until further orders.

2. Her promotion to the Grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 4th January 2011

No. 02 of 2011 (F. No. A-38012/2/2010-Adm. I)—On attaining the age of superannuation, Shri Sudarshan Kumar

Kapur, Deputy Secretary, a Selection Grade of CSS (CSL No. 4402) in the Ministry of Labour & Employment, has retired from Government Service, with effect from 31.12.2010.

PRADEEP GAUR, Under Secy.

No. 04 of 2011 (F. No. A-38013/3/2010-Adm. I)—On attaining the age of superannuation, Shri Maheswar Pandeya, Section Officer of the CSS working in the Ministry of Labour & Employment has retired from Government Service, with effect from 31.12.2010 (AN).

PRADEEP GAUR, Under Secy.

No. 05 of 2011 (F. No. A-38013/3/2010-Adm. I)—On attaining the age of superannuation, Ms. Meenu Ramrakhini, an ad hoc Section Officer of the CSS working in the Ministry of Labour & Employment has retired from Government Service, with effect from 31.12.2010 (AN).

PRADEEP GAUR, Under Secy.